



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

No. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2008/PAUSA 19, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 52(अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 486(अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 4, 5 तथा 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4. श्री जशुभाई दानाभाई बारड  
संसद सदस्य, लोक सभा  
24, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड,  
नई दिल्ली-110001

5. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा  
संसद सदस्य, लोक सभा  
सी-503, स्वर्ण जयंती सदन,  
डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110011

6. श्री बी. के. हरिप्रसाद  
संसद सदस्य, राज्य सभा  
एबी-5, पंडारा रोड,  
नई दिल्ली-110001

—सदस्य

(वह दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा लोक सभा का सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे)

—सदस्य

(वह दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा लोक सभा का सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे)

—सदस्य

(वह दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सभा का सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे)”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 6/18/2007-ईपी (एग्री IV)]

दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 486(अ), दिनांक 12 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :-

- (i) का. आ. 851(अ) दिनांक 20 नवम्बर, 1986
- (ii) का. आ. 50(अ) दिनांक 3 फरवरी, 1987
- (iii) का. आ. 757(अ) दिनांक 12 अगस्त, 1986
- (iv) का. आ. 458(अ) दिनांक 16 जून, 1989
- (v) का. आ. 808(अ) दिनांक 22 जून, 1991
- (vi) का. आ. 39(अ) दिनांक 22 जून, 1986
- (vii) का. आ. 99(अ) दिनांक 14 फरवरी, 1991
- (viii) का. आ. 827(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 1991
- (ix) का. आ. 858(अ) दिनांक 24 नवम्बर, 1992
- (x) का. आ. 1050(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1993
- (xi) का. आ. 531(अ) दिनांक 18 जुलाई, 1994
- (xii) का. आ. 346(अ) दिनांक 19 अप्रैल, 1995
- (xiii) का. आ. 668(अ) दिनांक 26 जुलाई, 1995
- (xiv) का. आ. 228(अ) दिनांक 21 मार्च, 1997
- (xv) का. आ. 683(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 1997
- (xvi) का. आ. 146(अ) दिनांक 24 फरवरी, 1998
- (xvii) का. आ. 805(अ) दिनांक 11 सितम्बर, 1998
- (xviii) का. आ. 288(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 1999
- (xix) का. आ. 794(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 1999
- (xx) का. आ. 39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 2000
- (xxi) का. आ. 417(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2000
- (xxii) का. आ. 156(अ) दिनांक 22 फरवरी, 2001
- (xxiii) का. आ. 482(अ) दिनांक 29 मई, 2001
- (xxiv) का. आ. 534(अ) दिनांक 10 मई, 2002
- (xxv) का. आ. 866(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2003
- (xxvi) का. आ. 1353(अ) दिनांक 25 नवम्बर, 2003
- (xxvii) का. आ. 1385(अ) दिनांक 23 सितम्बर, 2005
- (xxviii) का. आ. 365(अ) दिनांक 20 मार्च, 2006
- (xxix) का. आ. 1087(अ) दिनांक 11 जुलाई, 2006
- (xxx) का. आ. 588(अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007
- (xxxi) का. आ. 1780 दिनांक 16 अक्टूबर, 2007

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2007

**S.O. 52(E).**— In exercise of the powers conferred by clause(d) of sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986) read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E) dated the 12<sup>th</sup> August, 1986, namely:

1. In the said notification, for serial numbers 4, 5, and 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Shri Jashubhai Dhanabhai Barad<br/>Member of Parliament, Lok Sabha<br/>24, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-<br/>110001</p>                | <p>Member<br/>(He shall hold office for a period of two<br/>years or till he holds office of Member<br/>of Lok Sabha, whichever is earlier)</p>    |
| <p>5. Sardar Sukhdev Singh Libra<br/>Member of Parliament, Lok Sabha<br/>C-503, Swarna Jayanti Sadan,<br/>Dr. B.D. Marg,<br/>New Delhi- 110 011</p> | <p>Member<br/>(He shall hold office for a period of two<br/>years or till he holds office of Member<br/>of Lok Sabha, whichever is earlier)</p>    |
| <p>6. Shri B.K. Hariprasad<br/>Member of Parliament, Rajya Sabha<br/>AB-5, Pandara Road<br/>New Delhi - 110001</p>                                  | <p>Member<br/>(He shall hold office for a period of two<br/>years or till he holds office of Member<br/>of Rajya Sabha, whichever is earlier)"</p> |

2. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6/18/2007-EP (Agri. IV)]

DINESH SHARMA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India vide S. O. 486(E) dated 12<sup>th</sup> August 1986 and subsequently amended vide -

- (i) S. O. 851(E) dated 20<sup>th</sup> November, 1986
- (ii) S. O. 50(E) dated 3<sup>rd</sup> February, 1987
- (iii) S. O. 757(E) dated 12<sup>th</sup> August, 1988
- (iv) S. O. 458(E) dated 16<sup>th</sup> June, 1989
- (v) S. O. 808(E) dated 22<sup>nd</sup> October, 1990
- (vi) S. O. 39(E) dated 22<sup>nd</sup> June, 1991
- (vii) S. O. 99(E) dated 14<sup>th</sup> February, 1991
- (viii) S. O. 827(E) dated 16<sup>th</sup> December, 1991

- (ix) S. O. 858 (E) dated 24<sup>th</sup> November, 1992
- (x) S. O. 1050(E) dated 31<sup>st</sup> December, 1993
- (xi) S. O. 531(E) dated 18<sup>th</sup> July, 1994
- (xii) S. O. 346(E) dated 19<sup>th</sup> April, 1995
- (xiii) S. O. 668(E) dated 26<sup>th</sup> July, 1995
- (xiv) S. O. 228(E) dated 21<sup>st</sup> March, 1997
- (xv) S. O. 683(E) dated 26<sup>th</sup> September, 1997
- (xvi) S. O. 146(E) dated 24<sup>th</sup> February, 1998
- (xvii) S. O. 805(E) dated 11<sup>th</sup> September, 1998
- (xviii) S. O. 288(E) dated 26<sup>th</sup> April, 1999
- (xix) S. O. 794(E) dated 27<sup>th</sup> September, 1999
- (xx) S. O. 39(E) dated 12<sup>th</sup> January, 2000
- (xxi) S. O. 417(E) dated 26<sup>th</sup> April, 2000
- (xxii) S. O. 156(E) dated 22<sup>nd</sup> February, 2001
- (xxiii) S. O. 482(E) dated 29<sup>th</sup> May, 2001
- (xxiv) S. O. 534(E) dated 10<sup>th</sup> May, 2002
- (xxv) S. O. 866(E) dated 10<sup>th</sup> July, 2003 and
- (xxvi) S. O. 1353(E) dated 25<sup>th</sup> November, 2003.
- (xxvii) S.O. 1385(E) dated 23 September 2005 .
- (xxviii) S.O. 365(E) dated 20<sup>th</sup> March 2006
- (xxix) S.O. 1087(E) dated 11<sup>th</sup> July 2006
- (xxx) S.O. 588(E) dated 17<sup>th</sup> April 2007
- (xxxi) S.O. 1780(E) dated 16<sup>th</sup> October 2007.